




# भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 85] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 4, 1979/चैत्र 14, 1901  
No. 85] NEW DELHI, WEDNESDAY APRIL 4, 1979/CHAITRA 14, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation.

वित्त मंत्रालय Division. 100

(राजस्व विभाग) Acc. No. 1558 21135

(अप्रत्यक्ष कर प्रभाग) Date of 7/10/80

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1979 Coll. No. Processed

सार्वजनिक सूचना Date of Transfer

सं. प्रतिअदायगी/सा. सू. 36/79.—सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पादन शुल्क प्रति-  
अदायगी-निधमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971  
में प्रकाशित अधिसूचना सं. 52/फा. सं. 602/2/70-प्र.अ.) के नियम 4 के अधीन,  
केंद्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं. प्रतिअदायगी/सा.सू.  
1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एकाद्वारा निम्नीलिखित संशोधन  
करती है :—

1. उप क्र. सं. 2502 के खण्ड (क) की मधु (क) की उपमधु (1) के सामने 'प्रतिअवायगी की दर' स्तंभ में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"3.45 रु. (केवल तीन रुपये और पैंतालीस पैसे) प्रति कि. ग्रा." ।

2. उप क्रम सं. 2502 के खण्ड (क) की मधु (क) की उपमधु (2) के सामने 'प्रतिअवायगी की दर' स्तंभ में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"2.30 रु. (केवल दो रुपये और तीस पैसे) प्रति किलो ग्राम" ।

3. उप क्रम सं. 2503 के खण्ड (ग) की मधु (ग) की उपमधु (1) के सामने 'प्रतिअवायगी की दर' स्तंभ में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"3.80 रु. (केवल तीन रुपये और साठ पैसे) प्रति किलो ग्राम" ।

4. उपक्रम सं. 2503 के खण्ड (ग) की मधु (ग) की उपमधु (2) के सामने 'प्रतिअवायगी की दर' स्तंभ में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"2.40 रु. (केवल दो रुपये और चालीस पैसे) प्रति किलो ग्राम" ।

यह सार्वजनिक सूचना 5 अप्रैल, 1979 से लागू होगी ।

महेश कुमार, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### INDIRECT TAXES DIVISION

New Delhi, the 4th April, 1979

### PUBLIC NOTICE

**No. DRAWBACK/PN-36/79.**—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extraordinary, dated the 25th August, 1971). The Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time :—

1. In the Column 'Rate of drawback' against sub-item (i) of item (a) of Clause (A) of sub-Serial No. 2502, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 3.45 (Rupees three and paise forty-five only) per kg."

2. In the Column 'Rate of drawback' against Sub-item (ii) of item (a) of clause (A) of sub-Serial No. 2502 the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 2.30 (Rupees two and paise thirty only) per kg."

3. In the Column 'Rate of drawback' against sub-item (i) of item (c) of Clause (C) of sub-Serial No. 2503, the following shall be substituted namely :—

"Rs. 3.60 (Rupees three and paise sixty only) per kg."

4. In the Column 'Rate of drawback' against sub-item (ii) of item (c) of Clause (C) of sub-Serial No. 2503, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 2.40 (Rupees two and paise forty only) per kg."

This Public Notice shall come into force on the 5th day of April, 1979.

MAHESH KUMAR, Under Secy.

